


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1580]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 7, 2014/श्रावण 16, 1936

No. 1580]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2014/SHRAVANA 16, 1936

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2014

का.आ. 2010(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) तीन सौ सातवां संशोधन नियम, 2014 है।
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।
2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,
 - (1) प्रथम अनुसूची में, "15 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, उप-शीर्षक "(iv) एड्स नियंत्रण विभाग" का लोप किया जाएगा।
 - (2) द्वितीय अनुसूची में,—
 - (क) "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय" शीर्षक के अधीन,—
 - (i) "क. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग" उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 1 (त) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(थ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) ”

- (ii) "घ. एड्स नियंत्रण विभाग" उप-शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

प्रणब मुखर्जी
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/21/17/2014 -मंत्रि.]

संयुक्ता राय, निदेशक

**CABINET SECRETARIAT
NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th August, 2014

S.O. 2010(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Seventh Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(1) in THE FIRST SCHEDULE, under the heading "15. Ministry of Health and Family Welfare (Swasthya aur Parivar Kalyan Mantralaya)", the sub-heading "(iv) Department of AIDS Control (AIDS Niyantaran Vibhag)" shall be omitted.

(2) in THE SECOND SCHEDULE,—

(a) under the heading "MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SWASTHYA AUR PARIVAR KALYAN MANTRALAYA)",—

(i) under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SWASTHYA AUR PARIVAR KALYAN VIBHAG)" after the entry 1 (p), the following entry shall be inserted, namely:—

"(q) National AIDS Control Organisation (NACO).";

(ii) the sub-heading "D. DEPARTMENT OF AIDS CONTROL (AIDS NIYANTRAN VIBHAG)" and entries relating thereto shall be omitted.

PRANAB MUKHERJEE

President

[F. No. 1/21/17/2014-Cab.]

SANJUKTA RAY, Director